

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2016—श्रावण 20, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला छिंदवाड़ा के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, पटवारी हल्कों की सूची

मौसम—खरीफ, वर्ष 2016-2017

जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
छिन्दवाड़ा										
अमरवाड़ा										
		अमरवाड़ा-1	00016	हिवरासानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00042	अकलमा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	हिरी मुकासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	करबडोल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		अमरवाड़ा-2								
			00003	गाडरवाड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00009	ढोडाकुही	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	घोघरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		पौनार								
			00001	गढ़ा दर्याव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	भाजीपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00059	बारहहीरा माल	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	पुतरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00061	डुंगरिया रैयत	-	-	-	-	मक्का	-
		सिंगोडी								
			00025	मन्दानगढ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	पटनिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00030	बडेगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	रजोला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	चिमौआ	-	-	-	-	मक्का	-
		चौरई								
			00027	घोरावाडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00028	सिमरिया कलौ	-	-	-	-	मक्का	-
			00029	फुटेरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00031	खैरी खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	जुन्नारदेव									
		जुन्नारदेव								
			00039	बिदुआ खुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00040	कोल्हिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00042	उमराडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00045	करन पिपरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00047	गदुदम	-	-	-	-	मक्का	-
			00049	केवलारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00050	बिलावर खुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00051	पनारा	-	-	-	-	मक्का	-
			00052	डुगरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00053	खामास्वामी	-	-	-	-	मक्का	-
			00055	खामखेड़ा रैयत	-	-	-	-	मक्का	-
			00086	चटुवा	-	-	-	-	मक्का	-
			00087	दांतलावादी	-	-	-	-	मक्का	-
			00088	जुन्नोर विशाला	-	-	-	-	मक्का	-
			00089	चिखलमउ	-	-	-	-	मक्का	-
			00090	घुट्टी	-	-	-	-	मक्का	-
			00091	जुन्नारदेव	-	-	-	-	मक्का	-
			00092	बुधवारा	-	-	-	-	मक्का	-
			00094	नौलाखापा	-	-	-	-	मक्का	-
			00095	जमकुण्डा	-	-	-	-	मक्का	-
			00096	नजरपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00097	पाला चौरई	-	-	-	-	मक्का	-
			00098	बुरी कलॉ	-	-	-	-	मक्का	-
			00099	कोहनिया रैयत	-	-	-	-	मक्का	-
		दमुआ								
			00001	कूकरपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00002	आलमोद	-	-	-	-	मक्का	-
			00003	सांगाखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00004	झापिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	झोत कलॉ	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00007	गोप	-	-	-	-	मक्का	-
			00010	बातरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00013	टेकाढाना	-	-	-	-	मक्का	-
			00014	चौमउ	-	-	-	-	मक्का	-
			00015	पिन्डरई कलां	-	-	-	-	मक्का	-
			00016	भरदागढ	-	-	-	-	मक्का	-
			00017	रामपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00019	गुर्खुदई मउ	-	-	-	-	मक्का	-
			00020	तराई	-	-	-	-	मक्का	-
			00021	इकलामासानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00022	चीकटबरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00026	भरदी	-	-	-	-	मक्का	-
			00027	भाखरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00031	नन्दौरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00033	हिरदागढ	-	-	-	-	मक्का	-
			00034	करहैया	-	-	-	-	मक्का	-
			00035	छिन्दी कामथ	-	-	-	-	मक्का	-
			00037	बाम्हनवाड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00038	पुरैना खालसा	-	-	-	-	मक्का	-
			00041	माली	-	-	-	-	मक्का	-
		नवेगाँव								
			00058	मनकूघाटी	-	-	-	-	मक्का	-
			00059	नवेगाँव कलां	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	बदनूर	-	-	-	-	मक्का	-
			00062	मालनी	-	-	-	-	मक्का	-
			00068	घानाउमरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00079	मोहगाँव किसन	-	-	-	-	मक्का	-
			00082	माचीघाट माल	-	-	-	-	मक्का	-
	तामिया									
		तामिया								
			00024	पगडिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00025	मुत्तौर	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00026	इटावा	-	-	-	-	मक्का	-
			00027	घूसावानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00028	डोब	-	-	-	-	मक्का	-
			00029	मानकादेही	-	-	-	-	मक्का	-
			00030	लहगडुआ	-	-	-	तुअर	-	-
			00031	साजकुहो	-	-	-	-	मक्का	-
			00035	पाण्डु पिपरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00036	लिंगा	-	-	-	-	मक्का	-
			00037	जैतपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00040	छिन्दी	-	-	-	-	मक्का	-
			00043	हरा कछार	-	-	-	-	मक्का	-
			00046	नायरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00047	मानकादेवरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00052	खुलसान	-	-	-	-	मक्का	-
		देलाखरि								
			00001	सावरवानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	अण्होनी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00007	बम्होरी खुर्द	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00008	चावलपानी	-	धानसिंचित	-	-	-	-
			00011	हरकपुरा	-	-	-	तुअर	-	-
			00012	बोदल कछार	-	-	-	-	मक्का	-
			00013	चाखला	-	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00014	सिगोंडी	-	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00015	बम्हनी	-	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00016	कपूरनाला	-	धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00018	देलाखारी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	कुर्सीढाना	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00022	जामुनडोंगा	-	धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00023	बांगई	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		परासिया								
		परासिया								
			00002	दरबई	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	चिखली कलों	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00006	मायावाडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00007	बरारिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00012	डुंगरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00016	धमनिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00038	हरई	-	-	-	-	मक्का	-
			00042	जाटा छापर	-	-	-	-	मक्का	-
			00043	भाजीपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00044	इकलहरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00048	खमरा जेटू	-	-	-	-	मक्का	-
	सिरगोरा									
			00017	लोहारी बांदरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00018	देवरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00023	छिन्दा	-	-	-	-	मक्का	-
			00024	सेठिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00025	सिरगोरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00026	मण्डला	-	-	-	-	मक्का	-
			00027	सावलाढाना	-	-	-	-	मक्का	-
			00028	बागबर्धिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00029	जमुनिया पठार	-	-	-	-	मक्का	-
			00030	उरधन	-	-	-	-	मक्का	-
			00031	तुमडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00032	झुरै माल	-	-	-	-	मक्का	-
			00033	तेन्दूखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00034	पलटवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00035	हरनभटा	-	-	-	-	मक्का	-
			00036	पिन्डरई	-	-	-	-	मक्का	-
			00037	ढाला	-	-	-	-	मक्का	-
			00050	सहपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00051	खैरी चैतू	-	-	-	-	मक्का	-
			00052	फुटेरा	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	पाण्डुर्णा	नादंनवाडी								
			00002	पठारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	छाबडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	राजडोंगरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	चाटवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	सिराठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	भूली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	लेन्डोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	कामठी कलॉ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पीपरपानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	मोहखेड									
		इकल बिहरी								
			00060	तुर्की खापा	-	-	-	-	मक्का	-
			00064	मोहखेड	-	-	-	-	मक्का	-
		साँवरी								
			00003	भवारी रैयत	-	-	-	-	मक्का	-
			00007	बीजागोरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00010	डोडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	गोविंदवाडी माल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	जुनापानी माल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	साँवरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00026	देवगढ	-	-	-	-	मक्का	-
			00027	लोहांगी रैयत	-	-	-	-	मक्का	-
			29	महलपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00032	रजाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00033	बदनूर	-	-	-	-	मक्का	-
	हरई									
		धनौरा								
			00015	दामाखोह	-	-	-	तुअर	मक्का	-
			00016	झिरना	-	-	-	-	मक्का	-
			00017	कोठिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00019	सगोनिया	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00021	भुमका	-	-	-	-	मक्का	-
			00022	जिल्हेरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00023	भालपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00025	अण्डोल	-	-	-	-	मक्का	-
			00027	तिन्सई	-	-	-	-	मक्का	-
		बटकाखापा								
			00001	मढी	-	धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00002	चिलक	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00006	भैंसादण्ड	-	-	-	-	मक्का	-
			00007	कामठी	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00026	पलानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00029	मडई	-	-	-	-	मक्का	-
			00033	चुरी खुर्द	-	धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00034	सामरबोह	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-